



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 87] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 29, 1979/चैत्र 8, 1901
No. 87] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 29, 1979/CHAITRA 8, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती हैं जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 29 मार्च, 1979

अधीक्षक

केंद्रीय उत्पाद-शुल्क

सा. का. नि. 275 (अ).—केंद्रीय सरकार, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम
8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त

मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 71/78 केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1978 में निम्नीलिखित और संशोधन करती हैं, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध सारणी में,—

- (1) क्रम सं. 24 के सामने स्तम्भ 3 में प्रविष्टि के स्थान पर निम्नीलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

“कांच और कांच के बर्तन (इसके अन्तर्गत विद्युत रोधक या विद्युत रोधी फिटिंगों या ऐसे रोधकों या रोधी फिटिंगों के पुर्जे नहीं हैं)” ;

- (2) क्रम सं. 25 के सामने स्तम्भ 3 में प्रविष्टि के स्थान पर निम्नीलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

“सभी प्रकार के चीनी मिट्टी के बर्तन और प्रोसेलीन के बर्तन (इसके अंतर्गत विद्युत रोधक या विद्युत रोधी फिटिंगों या ऐसे रोधकों या रोधी फिटिंगों के पुर्जे नहीं हैं)” ।

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 1979 को प्रवृत्त होगी ।

[149/79/ फा. सं. 103/16/79-टी. आर. यू.]

जी. के. पिल्लै, अवर सीचव

**MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)**

New Delhi, the 29th March, 1979

NOTIFICATION

CENTRAL EXCISES

G.S.R. 275(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944 the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 71/78-Central Excises, dated the 1st March, 1978, namely :—

In the Table annexed to the said notification—

- (1) for the entry in the column 3 against serial No. 24, the following entry shall be substituted, namely :—

“Glass and Glassware (excluding electrical insulators or electrical insulating fittings or parts of such insulators or insulating fittings)” ;

- (2) for the entry in column 3 against serial No. 25, the following entry shall be substituted, namely :—

“Chinaware and Porcelainware, all sorts (excluding electrical insulators or electrical insulating fittings or parts of such insulators or insulating fittings)”.

2. This notification shall come into force on the 1st day of April, 1979.

[149/79/F. No. 103/16/79-TRU]

G. K. PILLAI Under Secy.